

## प्रेस नोट

थाना बिलसण्डा जनपद पीलीभीत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 201/21 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट मे 5000 रुपये का पुरुस्कार घोषित / वांछित अभियुक्त तालिब पुत्र इलियास निवासी ग्राम तालगाँव थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराधो की रोकथाम व अपराधियो की गिरफ्तारी के क्रम मे श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बीसलपुर के कुशल निर्देशन मे व थाना प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण मे थाना बिलसण्डा जनपद पीलीभीत पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 201/21 धारा 2/3 गैगस्टर मे वांछित अभियुक्त तालिब पुत्र इलियास निवासी ग्राम तालगाँव थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत के द्वारा 5000 /- रुपये का ईनाम घोषित किया हुआ है को आज दिनांक 07.07.21 मुखबिर खास ने सूचना दी कि साहब आपके मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त तालिब पुत्र इलियास निवासी ग्राम तालगाँव थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर ग्राम पहाडगंज से बीसलपुर की ओर जाने वाले तिराहे पर कही जाने की फिराक मे खडा है । अगर जल्दी कि जाये तो पकडा जा सकता है । मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके मुखबिर खास को साथ लेकर चल दिये जैसे ही हम पुलिस वाले ग्राम पहाडगंज तिराहे से पहले यात्री शेड की आड मे गाडी रुकवाकर मुखबिर खास ने बताया कि साहब जो व्यक्ति हल्के हरे रंग की शर्ट व पायजामा पहने हुये है वही तालिब है । हम पुलिस वालो ने एक बारगी दबिश देकर घेर घोट कर पाखड के पेड के नीचे ही अभियुक्त तालिब को पकड लिया । अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है । थाना बिलसण्डा पुलिस द्वारा किये गये उपरोक्त कार्य की क्षेत्र की जनता तथा उच्चाधिकारीगणो द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

1. तालिब पुत्र इलियास उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम तालगाँव थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर

### गिरफ्तार करने वाली टीम थाना बिलसण्डा -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार
2. का0 203 आकाश दीप
3. का0 1246 अमित कुमार

